



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 255] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 11, 1973/आश्विन 19, 1895  
No. 255] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 11, 1973/ASVINA 19, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 1973

**G.S.R. 473 (E).**—In pursuance of clause 3 of the Fertilizer (Control) Order, 1957 and in super session of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture) GSR 216 (E), dated the 30th March, 1972, the Central Government hereby fixes, with immediate effect, the price specified in column (2) of the schedule annexed hereto as the maximum price per tonne, at which the fertiliser specified in the corresponding entry in column (1) of the said Schedule

Shall be sold to the tea, coffee, or rubber plantations or to the cultivators :—

#### THE SCHEDULE

Name of the Fertiliser	Maximum price per tonne
(1)	(2)
	in rupees
1. Ammonium Sulphate :—	
(i) when packed in 100 kg. bags	590
(ii) when packed in 50 kg. bags	600
2. Urea (46— Nitrogen)	1050
3. Urea (Coated) 45— Nitrogen)	1030
4. Calcium Ammonium Nitrate (25% Nitrogen)	615
5. Calcium Ammonium Nitrate (26% Nitrogen)	645

**Explanation :—**The maximum price specified above shall be exclusive of the Central Sales Tax, Local Sales Tax or other local taxes wherever levied, whether at the retail sale point or at any intermediate stage.

**Note :—**When sales of any fertiliser are made in quantities not exceeding 5 Kilograms at a time, the dealer may charge one paise per Kilogram in addition to the proportionate maximum price specified above.

[No. 16-15/70-MPRSTU]  
T. P. SINGH, Secy.

## कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 1973

सा० का० नि० 473 (अ).—उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 के खंड 3 के अनुसारण में और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 216 (ई०) तारीख 30 मार्च, 1972 की अधिकांत करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा तुरन्त प्रभावी रूप से, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट कीमत की प्रति टन अधिकतम फुटकर की जिस पर उक्त अनुसूची के स्तंभ (1) में की तत्स्थायी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उर्वरक चाय, काफी, या खड़ बागानों या खेतिहरों को विक्रय किया जा सकेगा, नियत करती है।

## अनुसूची

उर्वरक का नाम	प्रति टन अधिकतम फुटकर कीमत
1	2
1. अमोनियम सल्फेट :—	रु०
(i) जब 100 किलोग्राम के थैलों में भरी हो	590
(ii) जब 50 किलोग्राम के थैलों में भरी हो	600
2. यूरिया (46 प्रतिशत नाइट्रोजन)	1050
3. यूरिया (लेमिन) (45 प्रतिशत नाइट्रोजन)	1030
4. कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट (25 प्रतिशत नाइट्रोजन)	615
5. कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट (26 प्रतिशत नाइट्रोजन)	645

**स्पष्टीकरण**—उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत में केन्द्रीय विक्रय कर, स्थानीय विक्रय कर या अन्य स्थानीय कर, भले ही किसी फुटकर विक्रय स्थान पर या अन्य किसी मध्यवर्ती स्थिति में जहां कहीं भी उद्ग्रहीत हो, सम्मिलित नहीं होगा।

**टिप्पण**—पांच किलोग्राम से अनधिक मात्रा में किसी एक समय के किसी उर्वरक के विक्रय किए जाने की स्थिति में व्यवहार्य उद्ग्रहीत विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के अनुपात में एक पैसा प्रति किलोग्राम अधिक ले सकेंगे।

[सं. 16-15/70-एम पी आर एम टी यू]

विशेष प्रसाद सिंह, सचिव।